



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 4] नई दिल्ली, फरवरी 25—मार्च 3, 2007, शनिवार/फाल्गुन 6—फाल्गुन 12, 1928
No. 4] NEW DELHI, FEBRUARY 25—MARCH 3, 2007, SATURDAY/PHALGUNA 6—PHALGUNA 12, 1928

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड ४
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2007

का.नि.आ. 9.—केंद्रीय सरकार राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में गुणता आश्वासन महानिदेशालय के निम्नलिखित कार्यालयों को, जिनके 80% कर्मचारीवृन्द ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है :

1. वरिष्ठ गुणता आश्वासन स्थापना (आयुध),
बड़माल बोलांगीर (उड़ीसा)-767770
2. गुणता आश्वासन स्थापना (डब्ल्यू ई/ई एफ एस),
गुआमनि काम्प्लेक्स, पझावन्थंगल डाकघर,
चैन्ने-600114

[सं. 2(1)/98-रक्षा(रा.भा.-II)]

रंजन चटर्जी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 15th February, 2007

S.R.O. 9.—In pursuance of sub-rule (4) of the Rule 10 of the Official Languages (Use for official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following offices of the Directorate General of Quality Assurance, 80% staff whereof has acquired working knowledge of Hindi :—

1. Senior Quality Assurance Establishment (Armament),
Badmal, Bolangir (Orissa)-767770
2. Quality Assurance Establishment (WE/EFS),
DGQA Complex, Pazhavanthangal Post Office,
Chennai-600114

[F.No. 2(1)/98/D(OL-II)]

RANJAN CHATTERJEE, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2007

का.नि.आ. 10.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा मंत्रालय, सुरक्षा कार्यालय (ज्येष्ठ स्वागत अधिकारी और कनिष्ठ स्वागत अधिकारी) भर्ती नियम, 2002 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, सुरक्षा कार्यालय (कनिष्ठ स्वागत अधिकारी) भर्ती संशोधन नियम, 2007 है।

2. रक्षा मंत्रालय, सुरक्षा कार्यालय (ज्येष्ठ स्वागत अधिकारी और कनिष्ठ स्वागत अधिकारी) भर्ती नियम, 2002 की अनुसूची में, कनिष्ठ स्वागत अधिकारी के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 2 के सामने,

(क) स्तंभ 10 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जायेंगी, अर्थात् :-

“सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष”

(ख) स्तंभ 11 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जायेंगी, अर्थात् :-

“प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा”

(ग) स्तंभ 12 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जायेंगी, अर्थात् :-

प्रतिनियुक्ति या आमेलन

सशस्त्र बल मुख्यालयों और अन्तर सेवा संगठनों में ऐसे कार्यरत सिविलियन :

(क) (i) जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या

(ii) जिन्होंने 3050-4590 रु. या समतुल्य के वेतनमान वाले पदों पर और उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो; और

(ख) जो स्तंभ (8) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएँ रखते हैं।

टिप्पण : 1 प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण : 2 प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

[फा. सं. 62206/मुप्रअ/आर-II]

एन. मारियप्पन, उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 4 में का.नि.आ. 137 तारीख 22 मई, 2002 द्वारा तारीख 06 जुलाई, 2002 को प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 8th February, 2007

S.R.O. 10.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Defence, Security Officer (Senior Reception Officer and Junior Reception Officer) Recruitment Rules, 2002, namely :—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Security Officer (Junior Reception Officer) Recruitment Amendment Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to Ministry of Defence, Security Office (Senior Reception Officer and Junior Reception Officer) Recruitment Rules, 2002, against serial number 2 relating to the post of Junior Reception Officer.

(a) for the existing entries in column 10 the following entries shall be substituted, namely :

“Two years for Direct Recruits”.

(b) for the existing entries in column 11 the following entries shall be substituted, namely :

“By deputation or absorption failing which by direct recruitment”

(c) for the existing entries in column 12 the following entries shall be substituted, namely :

Deputation or Absorption

Civilians working in Armed Forces Headquarters and Inter Service Organisations :

(a) (i) holding analogous posts on regular basis; or

(ii) posts in the pay scales of Rs. 3050—4590 or equivalent with eight years regular service in the grade; and

(b) possessing the educational qualifications prescribed for direct recruits under column (8).

Note 1.—Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this

appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

Note 2.—The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.

[File No. 62206/CAO/R-II]

N. MARIAPPAN, Dy. Chief Administrative Officer

Foot Note.—The principal rules were published on the 6th July, 2002 vide SRO 137, dated the 22nd May, 2002 in Part II, Section 4 of the Gazette of India.

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2007

का.नि.आ. 11.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा मंत्रालय, (सिविलियन फोटो निर्वचन ऑफिसर) भर्ती नियम, 1984 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया है या करने से लोप किया गया है, वायु सेना मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय में सिविलियन फोटो निर्वचन ऑफिसर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** :—(1). इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय (सिविलियन फोटो निर्वचन ऑफिसर) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2007 है।

2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान**.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि**.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति**.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति**.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
सिविलियन फोटो निर्वचन ऑफिसर	01*(2007) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अनुसचिवीय	8000-275- 13500 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए
अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

सीधे भर्ती किए जाने वाले
व्यक्तियों के लिए विहित आयु और
शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों
की दशा में लागू होंगी या नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि
कोई हो

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या
प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन
द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे
जाने वाले पदों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/
आमेलन किया जाएगा

11	12
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) या सशस्त्र बल कार्मिकों के पुनर्नियोजन द्वारा	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्द्धसरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारियों में से :-

(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग या समतुल्य में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 6500-10500 रु. के या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् या उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है, और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :—

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से फोटो चित्रण, गणित या भौतिकी विज्ञान या कम्प्यूटर विज्ञान या भू-विज्ञान या भूगोल या जल विज्ञान में मास्टर डिग्री या समतुल्य जिसमें स्नातक उपाधि स्तर पर गणित एक विषय के रूप में रहा हो।

(ii) सुदूर संवेदन या हवाई सर्वेक्षण और प्रतिचित्रण या अंकीय प्रतिबिम्ब प्रसंस्करण के क्षेत्र में दो वर्ष या व्यावहारिक अनुभव।

टिप्पण 1 :—प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसमें अल्पकालिक संविदा है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्त की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 :—प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 :—पुनर्नियोजन (सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए) ऐसे सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों पर भी, जो स्क्वाड्रन लीडर और उससे ऊपर की पंक्ति के हैं और एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवा निवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित होने वाले हैं और जिनके पास ऊपर विहित अर्हताएं तथा अनुभव हैं, विचार किया जाएगा, यदि उनका चयन हो जाता है तो ऐसे अधिकारियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति अवधि उस तारीख तक दी जाएगी जिसको वे सशस्त्र बलों से निर्मुक्त होने वाले हैं, तत्पश्चात् वे पुनर्नियोजन अवधि पर बने रह सकेंगे। यदि ऐसे पात्र अधिकारी पद पर वास्तविक चयन किए जाने से पूर्व सेवा निवृत्त हो गए हैं या रिजर्व में स्थानांतरित हो गए हैं तो उनकी नियुक्ति पुनर्नियोजन आधार पर होगी (सिविल पदों के प्रति-निर्देश से पुनर्नियोजन अधिवर्षिता की आयु तक)।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

14

लागू नहीं होता

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. 63697/मुप्रअ/भर्ती-II]

एन. मारियप्पन, उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

New Delhi, the 8th February, 2007

S.R.O. 11.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Defence (Civilian Photo Interpretation Officer) Recruitment Rules, 1984, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Civilian Photo Interpretation Officer in Air Headquarters, Ministry of Defence, namely :—

1. **Short title and commencement:**—(1) These Rules may be called the Ministry of Defence (Civilian Photo Interpretation Officer) Group 'A' post Recruitment Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and qualifications etc.**—The method of recruitment age limit, qualifications and other matters relating to said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for the appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other Special Categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of Post	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non-Selection post	Whether benefit of added years of Service admissible Under rule 30 of the Central Civil Service (Pensions) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Civilian Photo Interpretation Officer	1* (2007) *Subject to variation dependent on workload)	General Central Service Group "A" Gazetted Non-Ministerial	Rs. 8000-275-13,500	Not applicable	Not applicable	Not applicable

538 GI/07-2

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By deputation (including short-term contract) or re-employment of Armed Forces Personnel

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
12	13	14

Deputation (including short-term contract) :
From amongst the officers under the Central or State Government or Union Territories or Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Statutory or Autonomous Organisation,—

(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department, or equivalent; or

(ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 6500-10500 or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) possessing the following educational qualifications and experience :—

(i) Master's degree in Photogrammetry or Mathematics or Physics or Computer Science or Geology or Geography or Hydrology of a recognised University or equivalent with Maths as a subject at Bachelors degree level.

(ii) Two years practical experience in the field of remote sensing or aerial surveying and mapping or digital image processing.

Note 1.—Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another excadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 2.—The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceed 56 years as on the closing date of the receipt of applications.

Not applicable

Consultation with the Union Public Service Commission necessary.

Note 3 :—Re-employment (For Armed Forces Personnel) :

Armed Forces Personnel of the rank of Squadron Leader and above due to retire or to be transferred to reserve within a period of one year and possessing the qualifications and experience prescribed above shall also be considered, if selected, such officers will be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment terms. In case such eligible officers have retired or have been transferred to reserve before the actual selections to the post is made their appointment will be on re-employment basis.

(Re-employment upto the age of superannuation with reference to civil posts).

[F. No. 63697/CAO/R-II]

N. MARIAPPAN, Dy. Chief Administrative Officer

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2007

का.नि.आ. 12—रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 (1903 का 7) की धारा 3 और 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, जिसका यह अभिमत है कि भारतीय वायुसेना स्टेशनों और संस्थापनाओं के समीपस्थ भूमि के उपयोग तथा अधिभोग पर प्रतिबंध लगाए जाने आवश्यक और समीचीन हैं, एतद्वारा घोषणा करती है कि ऐसी भूमि, भवनों और अन्य रुकावटों से मुक्त रखी जाएगी तथा निदेश देती है कि:—

(क) इस अधिसूचना के अनुबंध 'क' में उल्लिखित भारतीय वायुसेना स्टेशनों और संस्थापनाओं के बाह्य प्राकार से 100 मीटर के दायरे में आने वाली किसी भी भूमि पर किसी भी भवन या ढांचे का निर्माण नहीं किया जाएगा, अथवा खड़ा या रचना नहीं की जाएगी अथवा कोई भी वृक्ष नहीं लगाया जाएगा।

(ख) इस अधिसूचना के अनुबंध 'ख' में दर्शाए गए भारतीय वायुसेना स्टेशनों और संस्थापनाओं के बाह्य प्राकार से 900 मीटर के दायरे में आने वाली किसी भी भूमि पर किसी भी भवन या संरचना का निर्माण नहीं किया जाएगा अथवा खड़ा या रचना नहीं की जाएगी अथवा कोई भी वृक्ष नहीं लगाया जाएगा।

(ग) बाह्य प्राकार से 100 मीटर के दायरे में आने वाली भूमि पर किसी भी भवन या संरचना का निर्माण नहीं किया जाएगा अथवा ढांचा खड़ा अथवा रचना नहीं की जाएगी अथवा कोई भी वृक्ष नहीं लगाया जाएगा सिवाय इसके कि 100 मीटर की सीमा का विस्तारण, इस अधिसूचना के अनुबंध 'ग' में दर्शाए गए भारतीय वायुसेना स्टेशनों और संस्थापनाओं में बम गोदाम की चौहद्दी की सीमा-रेखा से, 900 मीटर हो जाएगा।

(घ) भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय द्वारा वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 9 क के तहत, अधिसूचना संख्या का.आ. 988, दिनांक 5 जनवरी, 1988 के अंतर्गत लगाए गए प्रतिबंध भारतीय वायुसेना हवाई अड्डों पर लागू रहेंगे।

(ङ) इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ संबंधित वायुसेना स्टेशनों अथवा संस्थापनाओं के वायु कमान अफसर या क्रमान अफसर, जैसी भी स्थिति हो, रक्षा संकर्म अधिनियम 1903 (1903 का 7) की धारा 3 की उप-धारा (2) के तहत, उसके द्वारा दिए जाने वाले नोटिस में शामिल किए जाने के लिए, भू-धृति सहित सभी संगत ब्यौरे कलेक्टर को उपलब्ध कराएगा।

2. यह अधिसूचना, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

अनुबंध 'क'

[पैरा 1 (क) देखें]

स्टेशन या संस्थापनाएं जहां 100 मीटर तक प्रतिबंध लगाया जाना है

क्रम सं.	वायुसेना स्टेशन का नाम	जिला	राज्य
1	2	3	4
पश्चिमी वायु कमान			
1.	वायुसेना स्टेशन पालम	दक्षिण-पश्चिम दिल्ली	दिल्ली
2.	वायुसेना स्टेशन लेह	लद्दाख	जम्मू-कश्मीर
3.	वायुसेना स्टेशन जम्मू छावनी	जम्मू	जम्मू-कश्मीर

1	2	3	4
4.	वायुसेना स्टेशन हाइग्राउंड	मोहाली	पंजाब
5.	वायुसेना स्टेशन रजोकरी	दक्षिण-पश्चिम दिल्ली/गुडगांव	दिल्ली/हरियाणा
6.	वायुसेना स्टेशन सरस्वा	सहारनपुर	उत्तर प्रदेश
7.	वायुसेना स्टेशन थोइस	लद्दाख	जम्मू-कश्मीर
8.	वायुसेना स्टेशन अमृतसर छावनी	अमृतसर	पंजाब
9.	वायुसेना स्टेशन पटियाला	पटियाला	पंजाब
10.	वायुसेना स्टेशन कालुचक	जम्मू	जम्मू-कश्मीर
11.	वायुसेना स्टेशन बीकानेर	बीकानेर	राजस्थान
12.	वायुसेना स्टेशन भागवानसर	गंगानगर	राजस्थान
13.	वायुसेना स्टेशन बरनाला	संगरूर	पंजाब
14.	वायुसेना स्टेशन अर्जुनगढ़	दक्षिण दिल्ली/गुडगांव	दिल्ली/हरियाणा
15.	वायुसेना स्टेशन बडगामपुर	बडगामपुरा	जम्मू-कश्मीर
16.	वायुसेना स्टेशन डल्हौजी	चम्बा	हिमाचल प्रदेश
17.	वायुसेना स्टेशन कसौली	सोलन	हिमाचल प्रदेश
18.	वायुसेना स्टेशन बरवाला	मोहाली/अम्बाला	पंजाब/हरियाणा
19.	वायुसेना स्टेशन नाथाटोप	उधमपुर	जम्मू-कश्मीर
20.	वायुसेना स्टेशन बंसत नगर	दक्षिण-पश्चिम दिल्ली	दिल्ली
21.	वायुसेना स्टेशन काल्पी	अम्बाला	हरियाणा
22.	वायुसेना स्टेशन मल्लनपुर	मोहाली	पंजाब
23.	वायुसेना स्टेशन ढांसा	दक्षिणी-पश्चिम दिल्ली	दिल्ली
24.	वायुसेना स्टेशन नरेला	उत्तर-पश्चिम दिल्ली	दिल्ली
25.	वायुसेना स्टेशन राजपुरा	पटियाला	पंजाब
26.	वायुसेना स्टेशन बकनौर	अम्बाला	हरियाणा
27.	वायुसेना स्टेशन दादरी	गौतब-बुद्ध नगर	उत्तर प्रदेश
28.	वायुसेना स्टेशन चांदीनगर	बागपत	उत्तर प्रदेश
29.	वायुसेना स्टेशन मामुन छावनी	गुरुदासपुर	पंजाब
30.	वायुसेना स्टेशन फरीदाबाद	फरीदाबाद	हरियाणा
31.	पश्चिमी वायु कमान, सुब्रतो पार्क	दक्षिण-पश्चिम दिल्ली	दिल्ली
पूर्वी वायु कमान			
32.	वायुसेना स्टेशन बैरकपुर	24 परगना (उत्तर)	पश्चिम बंगाल
33.	वायुसेना स्टेशन कुंभीग्राम	सिल्चर	असम
34.	वायुसेना स्टेशन मोहनबाड़ी	डिब्रूगढ़	असम
35.	पूर्वी वायु कमान, उपरि शिलांग	पूर्वी खासी पहाड़ियां	मेघालय
36.	एडवॉंस मुख्या. पू. वा. क. फोर्ट विलियम	24 परगना (दक्षिण)	पश्चिम बंगाल
37.	वायुसेना स्टेशन सलुआ	मिदनापुर	पश्चिम बंगाल
38.	वायुसेना स्टेशन बुटा बाड़ी	न्यू जलपाइगुडी	पश्चिम बंगाल
39.	वायुसेना स्टेशन सिधासी	दुम्का, पाकुर और बीरभूम	झारखंड और पश्चिम बंगाल

1	2	3	4
40.	वायुसेना स्टेशन लैतकोर शिखर	पूर्वी खासी पहाड़ियां	मेघालय
41.	वायुसेना स्टेशन डींजन	तिनसुकिया	असम
42.	वायुसेना स्टेशन पानागढ़	बर्दवान	पश्चिम बंगाल
43.	वायुसेना स्टेशन करस्योंग	दार्जिलिंग	पश्चिम बंगाल
44.	वायुसेना स्टेशन मिसामारी	सोनितपुर	असम
दक्षिण पश्चिमी वायु कमान			
45.	वायुसेना स्टेशन ठाणे	ठाणे	महाराष्ट्र
46.	वायुसेना स्टेशन मकड़पुरा	वडोदरा	गुजरात
47.	वायुसेना स्टेशन फलोदी	जोधपुर	राजस्थान
48.	वायुसेना स्टेशन मुंबई	मुंबई	महाराष्ट्र
49.	वायुसेना स्टेशन कैलाना	जोधपुर	राजस्थान
50.	वायुसेना स्टेशन वाडसर	अहमदाबाद	गुजरात
51.	वायुसेना स्टेशन समाना	जामनगर	गुजरात
52.	वायुसेना स्टेशन मुध आइलैंड	मुध आइलैंड	महाराष्ट्र
53.	वायुसेना स्टेशन बांद्रा	बाड़मेर	राजस्थान
54.	वायुसेना स्टेशन मंदौर	जोधपुर	राजस्थान
55.	वायुसेना स्टेशन जयपुर	जयपुर	राजस्थान
56.	वायुसेना स्टेशन लोनावाला	पुणे	महाराष्ट्र
57.	वायुसेना स्टेशन बोरगड	नासिक	महाराष्ट्र
58.	वायुसेना स्टेशन माउंट आबु	सिरोही	राजस्थान
59.	वायुसेना स्टेशन योअर/कनहेरी हिल	ठाणे	महाराष्ट्र
60.	वायुसेना स्टेशन दीसा	बनासकंठा	गुजरात
61.	वायुसेना स्टेशन दीव	दीव	दमण और दीव
62.	वायुसेना स्टेशन पोखरन	जैसलमेर	राजस्थान
63.	वायुसेना स्टेशन मोथाला	कच्छ	गुजरात
64.	वायुसेना स्टेशन डुंडा	बाड़मेर	राजस्थान
65.	वायुसेना स्टेशन गोकुल नगर	जामनगर	गुजरात
66.	वायुसेना स्टेशन द्वारका	जामनगर	गुजरात
67.	वायुसेना स्टेशन सरमत	जामनगर	गुजरात
मध्य वायु कमान			
68.	वायुसेना स्टेशन बमरौली	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश
69.	वायुसेना स्टेशन ततारपुर/गिरधारीपुर	बरेली	उत्तर प्रदेश
70.	वायुसेना स्टेशन मेमौरा	लखनऊ	उत्तर प्रदेश
71.	वायुसेना स्टेशन कर्जन	गोरखपुर	उत्तर प्रदेश
72.	वायुसेना स्टेशन भवाली	नैनीताल	उत्तरांचल
73.	वायुसेना स्टेशन तिवारी तालाब	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश
74.	वायुसेना स्टेशन बिहटा	पटना	बिहार
75.	वायुसेना स्टेशन दरभंगा	दरभंगा	बिहार
76.	वायुसेना स्टेशन बक्शी का तालाब	लखनऊ	उत्तर प्रदेश

1	2	3	4
दक्षिणी वायु कमान			
77.	पश्चिमी वायु कमान स्टेशन अक्कुलम	तिरुअनंतपुरम	केरल
78.	वायुसेना स्टेशन षणमुखम	तिरुअनंतपुरम	केरल
79.	वायुसेना स्टेशन तंजावुर	तंजावुर	तमिलनाडु
80.	वायुसेना स्टेशन सूर्यलंका	गुंदुर	आंध्र प्रदेश
81.	वायुसेना स्टेशन चिमनी पहाड़ियां	बेंगलूर	कर्नाटक
प्रशिक्षण कमान			
82.	वायुसेना स्टेशन तांबरम	कांचीपुरम	तमिलनाडु
83.	वायुसेना स्टेशन हाकिमपेट	रंगा रेड्डी	आंध्र प्रदेश
84.	वायुसेना स्टेशन येलहंका	बेंगलूर (उत्तर)	कर्नाटक
85.	वायुसेना स्टेशन डुंडीगल	मेदक	आंध्र प्रदेश
86.	एसडीआई और एएसटीई, विमानपुरा	बेंगलूर (दक्षिण)	कर्नाटक
अनुरक्षण कमान			
87.	वायुसेना स्टेशन चक्रेरी	कानपुर	उत्तर प्रदेश
88.	वायुसेना स्टेशन सुलुर	कोयंबतूर	तमिलनाडु
89.	वायुसेना स्टेशन तुगलकाबाद	दिल्ली	दिल्ली
90.	वायुसेना स्टेशन नजफगढ़	दिल्ली	दिल्ली
91.	वायुसेना स्टेशन पालम कालोनी	दिल्ली	दिल्ली
92.	वायुसेना स्टेशन वाडसर	गांधीनगर	गुजरात
93.	वायुसेना स्टेशन आवडी	चेन्नई	तमिलनाडु
94.	वायुसेना स्टेशन मनौड़ी	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश
95.	वायुसेना स्टेशन देवलाली	नासिक	महाराष्ट्र
96.	7 वायुसेना अस्पताल, कानपुर	कानपुर	उत्तर प्रदेश
97.	वायुसेना स्टेशन नागपुर	नागपुर	महाराष्ट्र

अनुबंध 'ख'

[पैरा 1 (ख) देखें]

स्टेशन या संस्थापनाएं जहां 900 मीटर तक प्रतिबंध लगाया जाना है

क्रम सं.	वायुसेना स्टेशन का नाम	जिला	राज्य
1.	वायुसेना स्टेशन अमला	बेतुल	मध्य प्रदेश
2.	वायुसेना स्टेशन गुडगांव	गुडगांव	हरियाण
3.	वायुसेना स्टेशन डिगरु	कामरूप	पश्चिम बंगाल

अनुबंध 'ग'

[पैरा 1 (ग) देखें]

स्टेशन या संस्थापनाएं जहां 100 से 900 मीटर तक प्रतिबंध लगाया जाना है

क्रम सं.	वायुसेना स्टेशन का नाम	जिला	राज्य
पश्चिमी वायु कमान			
1.	वायुसेना स्टेशन श्रीनगर	बडगामपुरा	जम्मू-कश्मीर
2.	वायुसेना स्टेशन अम्बाला छावनी	अम्बाला	हरियाणा
3.	वायुसेना स्टेशन आदमपुर	जालन्धर	पंजाब
4.	वायुसेना स्टेशन हलवाड़ा	लुधियाना	पंजाब
5.	वायुसेना स्टेशन चडीगढ़	चडीगढ़/मोहाली	संघ शासित/पंजाब
6.	वायुसेना स्टेशन पटानकोट	गुरदासपुर	पंजाब
7.	वायुसेना स्टेशन हिंडन	गाजियाबाद	उत्तर प्रदेश
8.	वायुसेना स्टेशन भिसियाना	बठिंडा	पंजाब
9.	वायुसेना स्टेशन सूरतगढ़	श्री गंगानगर	राजस्थान
10.	वायुसेना स्टेशन उधमपुर	उधमपुर	जम्मू-कश्मीर
11.	वायुसेना स्टेशन सिरसा	सिरसा	हरियाणा
12.	वायुसेना स्टेशन नाल	बीकानेर	राजस्थान
13.	वायुसेना स्टेशन राजासांसी	अमृतसर	पंजाब
14.	वायुसेना स्टेशन अवंतीपुर	पुलवामा	जम्मू-कश्मीर
दक्षिण पश्चिमी वायु कमान			
15.	वायुसेना स्टेशन लोहेगांव	पुणे	महाराष्ट्र
16.	वायुसेना स्टेशन भुज	कच्छ	गुजरात
17.	वायुसेना स्टेशन रतनाडा	जोधपुर	राजस्थान
18.	वायुसेना स्टेशन जामनगर	जामनगर	गुजरात
19.	वायुसेना स्टेशन जैसलमेर	जैसलमेर	राजस्थान
20.	वायुसेना स्टेशन उतरलाई	बाडमेर	राजस्थान
21.	वायुसेना स्टेशन भनाडा (नलिया)	कच्छ	गुजरात
पूर्वी वायु कमान			
22.	वायुसेना स्टेशन कलाइकुंडा	मिदनापुर	पश्चिम बंगाल
23.	वायुसेना स्टेशन जोरहाट	जोरहाट	असम
24.	वायुसेना स्टेशन तेजपुर	सोनितपुर	असम
25.	वायुसेना स्टेशन छबुआ	डिब्रूगढ़	असम
26.	वायुसेना स्टेशन हासीमारा	जलपाइगुड़ी	पश्चिम बंगाल
27.	वायुसेना स्टेशन बोर्जहार	कामरूप	असम
28.	वायुसेना स्टेशन बागडोगरा	दार्जिलिंग	पश्चिम बंगाल
29.	वायुसेना स्टेशन पूर्णिया	पूर्णिया	बिहार
मध्य वायु कमान			
30.	वायुसेना स्टेशन आगरा	आगरा	उत्तर प्रदेश
31.	वायुसेना स्टेशन बरेली	बरेली	उत्तर प्रदेश
32.	वायुसेना स्टेशन गोरखपुर	गोरखपुर	उत्तर प्रदेश
33.	वायुसेना स्टेशन महाराजपुर	ग्वालियर	मध्य प्रदेश
प्रशिक्षण कमान			
34.	वायुसेना स्टेशन बिदर	बिदर	कर्नाटक

[फा. सं. 4(13)/2005/रक्षा (वायु-II)]

एस. के. झा, अवर सचिव

New Delhi, the 14th February, 2007.

S.R.O. 12.—In exercise of the powers conferred by Sections 3 and 7 of the Works of Defence Act, 1903 (7 of 1903), the Central Government, being of the opinion that it is necessary and expedient to impose restrictions, upon the use and enjoyment of land in the vicinity of the Indian Air Force Stations and Installations, hereby declares that such land shall be kept free from buildings and other obstructions and directs that :—

- (a) no building or structure shall be constructed, created or erected or no tree shall be planted on any land within the limits of 100 meters from the crest of the outer parapet of Indian Air Force Stations and Installations as given in the Annexure 'A' to this notification.
- (b) no building or structure shall be constructed, created or erected or no tree shall be planted on any land within the limits of 900 meters from the crest of the outer parapet of Indian Air Force Stations and Installations as given in the Annexure 'B' to this Notification.
- (c) no building or structure shall be constructed, created or erected or no tree shall be planted on any land within the limits of 100 meters from the crest of the outer parapet except that the limit of 100 meters will extend to 900 meters from and in line with the boundary of the bomb dump at Indian Air Force Stations and Installations as given in the Annexure 'C' to this notification.
- (d) The restrictions imposed by the Government of India in the Ministry of Civil Aviation under Section 9A of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), *vide* its notification number S.O. 988, dated the 5th January, 1988 shall continue to be applicable to the Indian Air Force Aerodromes.
- (e) For the purpose of this notification, the Air Officer Commanding or Commanding Officer of the concerned Indian Air Force Stations or Installations, as the case may be, shall provide all the relevant details including land holdings to the Collector for inclusion in the public notice to be given by him under sub-section (2) of Section 3 of the Works of Defence Act, 1903 (7 of 1903).

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

Annexure 'A'

[See to Para 1 (a)]

**STATIONS OR INSTALLATIONS WHERE RESTRICTION TO BE
IMPOSED UPTO 100 MTRS.**

Sl. No.	Name of Air Force Station	District	State
1	2	3	4
Western Air Command			
1.	Air Force Station Palam	South-West Delhi	Delhi
2.	Air Force Station Leh	Laddakh	Jammu & Kashmir
3.	Air Force Station Jammu Cantt.	Jammu	Jammu & Kashmir
4.	Air Force Station Highgrounds	Mohali	Punjab
5.	Air Force Station Rajokri	South-West Delhi/Gurgaon	Delhi/Haryana
6.	Air Force Station Sarsawa	Saharanpur	Uttar Pradesh
7.	Air Force Station Thoise	Laddakh	Jammu & Kashmir
8.	Air Force Station Amritsar Cantt.	Amritsar	Punjab
9.	Air Force Station Patiala	Patiala	Punjab
10.	Air Force Station Kaluchak	Jammu	Jammu & Kashmir
11.	Air Force Station Bikaner	Bikaner	Rajasthan
12.	Air Force Station Bhagwansar	Ganganagar	Rajasthan
13.	Air Force Station Barnala	Sangrur	Punjab
14.	Air Force Station Arjanganh	South Delhi/Gurgaon	Delhi/Haryana
15.	Air Force Station Badgamapura	Badgamapura	Jammu & Kashmir
16.	Air Force Station Dalhausie	Chamba	Himachal Pradesh
17.	Air Force Station Kasauli	Solan	Himachal Pradesh
18.	Air Force Station Barwala	Mohali/Ambala	Punjab/Haryana

1	2	3	4
19.	Air Force Station Nathatop	Udhampur	Jammu & Kashmir
20.	Air Force Station Basant Nagar	South-West Delhi	Delhi
21.	Air Force Station Kalpi	Ambala	Haryana
22.	Air Force Station Mullanpur	Mohali	Punjab
23.	Air Force Station Dhansa	South-West Delhi	Delhi
24.	Air Force Station Narela	North-West Delhi	Delhi
25.	Air Force Station Rajpura	Patiala	Punjab
26.	Air Force Station Baknour	Ambala	Haryana
27.	Air Force Station Dadri	Goutam Budh Nagar	Uttar Pradesh
28.	Air Force Station Chandinagar	Bagpat	Uttar Pradesh
29.	Air Force Station Mamun Cantt.	Gurdaspur	Punjab
30.	Air Force Station Faridabad	Faridabad	Haryana
31.	Western Air Command, Subroto Park	South-West Delhi	Delhi
Eastern Air Command			
32.	Air Force Station Barrackpore	24 Pargnas (N)	West Bengal
33.	Air Force Station Kumbhigram	Silchar	Assam
34.	Air Force Station Mohanbari	Dibrugarh	Assam
35.	Eastern Air Command, Upper Shillong	East Khasi Hills	Meghalaya
36.	Advance HQ EAC Fortwilliam	24 Pargnas (S)	West Bengal
37.	Air Force Station Salua	Midnapore	West Bengal
38.	Air Force Station Buta Bari	New Jalpaiguri	West Bengal
39.	Air Force Station Singharsi	Dumka, Pakur & Birbhum	Jharkhand & West Bengal
40.	Air Force Station Laitkor Peak	East Khasi Hills	Meghalaya
41.	Air Force Station Dinjan	Tinsukia	Assam
42.	Air Force Station Panagarh	Burdwan	West Bengal
43.	Air Force Station Kurseong	Darjeeling	West Bengal
44.	Air Force Station Missamari	Sonitpur	Assam
South Western Air Command			
45.	Air Force Station Thane	Thane	Maharashtra
46.	Air Force Station Makarpura	Vadodara	Gujarat
47.	Air Force Station Phalodi	Jodhpur	Rajasthan
48.	Air Force Station Mumbai	Mumbai	Maharashtra
49.	Air Force Station Kailana	Jodhpur	Rajasthan
50.	Air Force Station Wadsar	Ahmedabad	Gujarat
51.	Air Force Station Samana	Jamnagar	Gujarat
52.	Air Force Station Mudh Island	Mudh Island	Maharashtra
53.	Air Force Station Bandra	Barmer	Rajasthan
54.	Air Force Station Mandor	Jodhpur	Rajasthan
55.	Air Force Station Jaipur	Jaipur	Rajasthan
56.	Air Force Station Lonavala	Pune	Maharashtra
57.	Air Force Station Borgad	Nasik	Maharashtra
58.	Air Force Station Mount Abu	Sirohi	Rajasthan
59.	Air Force Station Yeour/Kanheri Hills	Thane	Maharashtra
60.	Air Force Station Deesa	Banaskantha	Gujarat
61.	Air Force Station Diu	Diu	Daman & Diu
62.	Air Force Station Pokhran	Jaisalmer	Rajasthan

1	2	3	4
63.	Air Force Station Mothala	Kutch	Gujarat
64.	Air Force Station Dunda	Barmer	Rajasthan
65.	Air Force Station Gokul Nagar	Jamnagar	Gujarat
66.	Air Force Station Dwarka	Jamnagar	Gujarat
67.	Air Force Station Sarmat	Jamnagar	Gujarat
Central Air Command			
68.	Air Force Station Bamrauli	Allahabad	Uttar Pradesh
69.	Air Force Station Tatarpur/Girdharipur	Bareilly	Uttar Pradesh
70.	Air Force Station Memaura	Lucknow	Uttar Pradesh
71.	Air Force Station Karjan	Gorakhpur	Uttar Pradesh
72.	Air Force Station Bhowali	Nainital	Uttanchal
73.	Air Force Station Tiwari Talab	Allahabad	Uttar Pradesh
74.	Air Force Station Bihta	Patna	Bihar
75.	Air Force Station Darbhanga	Darbhanga	Bihar
76.	Air Force Station Bakshi ka Talab	Lucknow	Uttar Pradesh
Southern Air Command			
77.	Southern Air Command Akkulam	Thiruvananthapuram	Kerala
78.	Air Force Station Shangumukhom	Thiruvananthapuram	Kerala
79.	Air Force Station Thanjavur	Thanjavur	Tamil Nadu
80.	Air Force Station Suryalanka	Gundur	Andhra Pradesh
81.	Air Force Station Chimney Hills	Bangalore	Karnataka
Training Command			
82.	Air Force Station Tambaram	Kanchipuram	Tamil Nadu
83.	Air Force Station Hakimpet	Ranga Reddy	Andhra Pradesh
84.	Air Force Station Yelahanka	Bangalore (N)	Karnataka
85.	Air Force Station Dundigal	Medak	Andhra Pradesh
86.	SDI & ASTE, Vimanapura	Bangalore (S)	Karnataka
Maintenance Command			
87.	Air Force Station Chakeri	Kanpur	Uttar Pradesh
88.	Air Force Station Sulur	Coimbatore	Tamil Nadu
89.	Air Force Station Tughlakabad	Delhi	Delhi
90.	Air Force Station Najafgarh	Delhi	Delhi
91.	Air Force Station Palam Colony	Delhi	Delhi
92.	Air Force Station Wadsar	Gandhinagar	Gujarat
93.	Air Force Station Avadi	Chennai	Tamil Nadu
94.	Air Force Station Manauri	Allahabad	Uttar Pradesh
95.	Air Force Station Devlali	Nasik	Maharashtra
96.	Air Force Hospital, Kanpur	Kanpur	Uttar Pradesh
97.	Air Force Station Nagpur	Nagpur	Maharashtra

Annexure 'B'

[See to Para 1 (b)]

STATIONS OR INSTALLATIONS WHERE RESTRICTION TO BE
IMPOSED UP TO 900 MTRS

Sl. No.	Name of Air Force Station	District	State
1.	Air Force Station Amla	Betul	Madhya Pradesh
2.	Air Force Station Gurgaon	Gurgaon	Haryana
3.	Air Force Station Digaru	Kamrup	West Bengal

Annexure 'C'

[See to Para 1 (c)]

STATIONS OR INSTALLATIONS WHERE RESTRICTION TO BE
IMPOSED UPTO 100 TO 900 METERS

Sl. No.	Name of Air Force Station	District	State
Western Air Command			
1.	Air Force Station Srinagar	Badgampura	Jammu & Kashmir
2.	Air Force Station Ambala Cantt	Ambala	Haryana
3.	Air Force Station Adampur	Jalandhar	Punjab
4.	Air Force Station Halwara	Ludhiana	Punjab
5.	Air Force Station Chandigarh	Chandigarh/Mohali	UT/Punjab
6.	Air Force Station Pathankot	Gurdaspur	Punjab
7.	Air Force Station Hindan	Ghaziabad	Uttar Pradesh
8.	Air Force Station Bhisiana	Bhatinda	Punjab
9.	Air Force Station Suratgarh	Sri Ganganagar	Rajasthan
10.	Air Force Station Udampur	Udhampur	Jammu & Kashmir
11.	Air Force Station Sirsa	Sirsa	Haryana
12.	Air Force Station Nal	Bikaner	Rajasthan
13.	Air Force Station Rajasansi	Amritsar	Punjab
14.	Air Force Station Awantipur	Pulwama	Jammu & Kashmir
South Western Air Command			
15.	Air Force Station Lohegaon	Pune	Maharashtra
16.	Air Force Station Bhuj	Kutch	Gujarat
17.	Air Force Station Ratanada	Jodhpur	Rajasthan
18.	Air Force Station Jamnagar	Jamnagar	Gujarat
19.	Air Force Station Jaisalmer	Jaisalmer	Rajasthan
20.	Air Force Station Utlai	Barmer	Rajasthan
21.	Air Force Station Bhanada (Naliya)	Kutch	Gujarat
Eastern Air Command			
22.	Air Force Station Kalaikunda	Midnapore	West Bengal
23.	Air Force Station Jorhat	Jorhat	Assam
24.	Air Force Station Tezpur	Sonitpur	Assam
25.	Air Force Station Chabua	Dibrugarh	Assam
26.	Air Force Station Hasimara	Jalpaiguri	West Bengal
27.	Air Force Station Borjhar	Kamrup	Assam
28.	Air Force Station Bagdogra	Darjeeling	West Bengal
29.	Air Force Station Purnea	Purnea	Bihar
Central Air Command			
30.	Air Force Station Agra	Agra	Uttar Pradesh
31.	Air Force Station Bareilly	Bareilly	Uttar Pradesh
32.	Air Force Station Gorakhpur	Gorakhpur	Uttar Pradesh
33.	Air Force Station Maharajpur	Gwalior	Madhya Pradesh
Training Command			
34.	Air Force Station Bidar	Bidar	Karnataka

[F. No. 4(13)/2005/D (Air-II)]

S. K. JHA, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2007

का.नि.आ. 13.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सशस्त्र बल आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और सशस्त्र बल चिकित्सा भंडार डिपो (ज्येष्ठ अनुवादक) (अंग्रेजी/हिंदी) भर्ती नियम, 2002 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सशस्त्र बल आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और सशस्त्र बल चिकित्सा भंडार डिपो (ज्येष्ठ अनुवादक) (अंग्रेजी/हिंदी) भर्ती संशोधन नियम, 2007 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सशस्त्र बल आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और सशस्त्र बल चिकित्सा भंडार डिपो (ज्येष्ठ अनुवादक) (अंग्रेजी/हिंदी) भर्ती नियम, 2002 की अनुसूची में, स्तंभ 2 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“2*(2007) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।”

[फा. सं 11375/आरआर/एसटी/डीजीएफएमएस/डीजी-2बी/670/आरआर/डी (नि.) दिनांक 19-2-07]

वी. ए. चावडा, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र भाग II, खंड 4, पेज 352 से 356 में सं. का.नि.आ. 150 तारीख 28 जून, 2002 में प्रकाशित हुए।

New Delhi, the 19th February, 2007

S. R. O. 13.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Armed Forces Medical College and Armed Forces Medical Stores Depots (Senior Translator) (English/Hindi) Recruitment Rules, 2002, namely :—

1. (1) These rules may be called the Armed Forces Medical College and Armed Forces Medical Stores Depots (Senior Translator) (English/Hindi) Recruitment (Amendment) Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Armed Forces Medical College and Armed Forces Medical Stores Depot (Senior Translator) (English/Hindi) Recruitment Rules, 2002, in the Schedule for the entry in column 2, the following entry shall be substituted, namely :—

“2*(2007) Subject to variation dependent on the workload.”

[F. No. 11375/RR/ST/DGAFMS/DG-2B/670/RR/D (Appts) dt. 19-2-07]

V. A. CHAVDA, Under Secy.

Foot Note.—The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 4, at pages 352 to 356 vide No. S.R.O. 150 dated the 28th June, 2002.